

धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई

श्री जी टायर सर्विस पोकरण

श्री नाथ ट्रेडर्स पोकरण

होटल श्री साई पैलेस पोकरण

राजेश व्यास
पावपा युवा नेता व अध्यक्ष
व्यापार मण्डल, पोकरण



कार्यालय ग्राम पंचायत आलमसर खुर्द
पंचायत समिति धोरीमन्ना (बाडमेर)

लाभकारी योजनाएं :-

- विवाह पंजीयन अवश्य कराएं
- भुण हत्या न करवाएं । सामाजिक अपराध है इसे रोके ।
- बालक - बालिकाओं को शिक्षा से वंचित न रखें ।
- परिवार नियोजन अपनाएं एवं परिवार छोटा रखें ।

विमला देवी
प्रशासक
आलमसर खुर्द

राजाराम
ग्राम विकास अधिकारी
आलमसर खुर्द

सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई

खिलमिलानें दीपों की रोशनी से प्रकाशित
ये दीपावली आपके घर में सुख-समृद्धि
और आशीर्वाद लेकर आए

महंत प्रतापपुरी जी
विधायक, पोकरण

श्री दलपत हिगड़ा
मानव विकास, देवास

एडवोकेट भूपाल किशोर
पूर्व जिलाध्यक्ष, बाडमेर

श्री कृष्णकान्त व्यास

श्री विनोद कुमार व्यास

जय ज्वाला कॉन्टैक्ट्स पोकरण

जय ज्वाला स्टोन क्रेशर

पोकरण बाई पास के टोल नाका के पास

पुष्पा
चाइल्ड केयर

NH- 68 बाडमेर रोड, धोरीमन्ना

डॉ. बीरबल खिलेरी
MBBS, MD, MIAPD
नवजात शिशु एवं बाल रोग

नवजात शिशु के लिए महान चिकित्सा कक्ष, इन्फ्यूजेंट, सार्जरी, ड्रग्स कोटो सेपेथी (पीसिंग)
ऊँचा माह में अपने शिशु की सम्पूर्ण देखरेख, बाबा अम्मा, मिट्टी खाना, दूध, मधुमिषा,
टाइफाइड मलेरिया, डेंगू, डेन्गू-चलू का सम्पूर्ण इलाज, गर्भवती महिलाओं की सम्पूर्ण शारीरिक
अवस्थाओं का निगरानी व सुख सम्पन्न गर्भ, जन्म व पालन और सम्बन्धित सभी
निः-संलग्नता हेतु परामर्श व इलाज, पैदाव व जन्म की सम्पूर्ण ज़रूरतें

डिजिटल एक्स-रे व सभी प्रकार के खून की जांच उपलब्ध

पुष्पा
चाइल्ड केयर धोरीमन्ना

मिलावट के
खिलाफ कार्रवाई

बाडमेर, (नि.सं.) शुद्ध आहार
मिलावट पर वार दीपावली विशेष
अभियान में कार्यवाही जारी रखते हुए
बाडमेर मुख्यालय पर नमूने लिए गए
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
डॉ विष्णु राम बिश्नोई ने बताया कि शुद्ध
आहार मिलावट पर वार दीपावली विशेष
अभियान में लगातार कार्यवाही जारी
रखते हुए आज रविवार को भी खाद्य
सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़
द्वारा फर्म जीवन मिश्रान भंडार से खाद्य
पदार्थ मावा पेड़ा मिठाई, गुलाब जामुन
मिठाई बेसन की बर्फी और फर्म माधव
स्वीट होम से खाद्य पदार्थ मिठाई मावा
बर्फी और फर्म जैन केटर्स से मिठाई
मावा बर्फी आदि के नमूने लिए गए।

आप सभी को
धनतेरस
की हार्दिक
शुभकामनाएँ

प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना
33 केंद्रीय विद्यालयों पर के सामने धोरीमन्ना जिला-बाडमेर
यार आई टी आई, धोरीमन्ना
33 केंद्रीय विद्यालयों पर के सामने धोरीमन्ना जिला-बाडमेर
मरुधरा आई टी आई, धोरीमन्ना
श्री रामदेव आई टी आई धोरीमन्ना
इस विकास यात्रा पर, हम आपके लिए सुगम और सुरक्षित मार्ग की कामना करते हैं।
मजबूत बुनियादी ढांचे का उपयोग सावधानी से करें और उसके रखरखाव में सहयोग दें।
आपकी सुरक्षा और सुविधा ही हमारी प्राथमिकता है।

बालोतरा वाटर पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेन्ट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट



आप सभी को
प्रकाश व प्रसन्नता
के
पावन पर्व

दीपावली

की ढेरों शुभकामनाएं

पर्यावरण बचाएं जीवन बचाएं
आओ मिलकर धरती को स्वर्ग बनाएं

स्वच्छ पर्यावरण, पानी और हवा,
है जीवन जीने की अनमोल दवा।

पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए उद्योगों के सर्वांगीण विकास हेतु
संकल्पबद्ध

शुभेच्छः

बालोतरा वाटर पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेन्ट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट
बालोतरा लघु उद्योग मण्डल समिति एवं बालोतरा हैण्ड प्रोसेस एसोशियेशन

आप सभी देशवासियों को दीपों के उत्सव
धनतेरस, भाईदूज एवं
दीपावली
की हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएं

आप सभी पर मां लक्ष्मी की
कृपा बनी रहे।

इस विकास यात्रा पर, हम आपके लिए सुगम और सुरक्षित मार्ग की कामना करते हैं।
मजबूत बुनियादी ढांचे का उपयोग सावधानी से करें और उसके रखरखाव में सहयोग दें।
आपकी सुरक्षा और सुविधा ही हमारी प्राथमिकता है।

2025-26 की बजट घोषणाएं:
अटल पथ योजना: रामदेवरा व नाचना में 2-2 करोड़ रुपये की लागत से अटल पथ निर्माण (कार्य प्रगति पर)।
नॉन-पैवेबल सड़कें: पोकरण विधानसभा क्षेत्र में 64.5 किलोमीटर की 6 सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत।
मिसिंग लिंक: क्षेत्र में 17.2 किलोमीटर की 6 सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत।
पोकरण विधानसभा क्षेत्र के छायाण गांव से फलोदी के बारु गांव तक: 6 किलोमीटर सड़क निर्माण
के लिए 2.75 करोड़ रुपये (कार्य प्रगति पर)।

सड़क सुरक्षा जागरूकता: नियमों का पालन कर सड़क हादसों से बचें।

- हमेशा सीट बेल्ट या हेलमेट पहनें।
- गति सीमा का पालन करें।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
- यातायात संकेतों का पालन करें।
- पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कर ही सड़क पार करें।
- सड़क पर एकपत्रा से वाहन चलाएं।
- कभी भी एकतरफा (One-way) सड़क पर विपरीत दिशा में वाहन न चलाएं।
- सड़क पर गलत तरीके से वाहन पार्क न करें।
- सड़क पर सुरक्षित रहें।

"सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क सुरक्षा, जीवन की कसौटी।"

कार्यालय:- सार्वजनिक निर्माण विभाग - पोकरण